



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 2003 (ज्येष्ठ 24, 1925)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 2003 (JYAISTHA 24, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 31 मई 2003

सं० ए-34011/2/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री माम राज सिंह, अनुभाग अधिकारी, को 2 जून 2003 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में तदर्थ आक्षार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2003

सं० आरएस/6(4)/2003/21-कार्मिक—श्री प्रशान्त कुमार, जिनकी नियुक्ति राज्य सभा की आवास समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावतन के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में हुई थी, की सेवाएं 31 मई, 2003 के पूर्वाह्न से समाप्त हो गई हैं।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आर० एस०/6(iv)/2003/22-कार्मिक—श्री अनवर को राज्य सभा सचिवालय में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में 1 जून, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए राज्य सभा की आवास समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में अस्थायी रूप से वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री अनवर की नियुक्ति राज्य सभा की आवास समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्य-काल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 मई, 2003

सं० ए-11011/1/2003-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री आर० एस० बेदी (अ० एवं वि० सं० : 66) को 26,000 रुपये

(निश्चित) के वेतनमान में दिनांक 28 मार्च 2003 के अपराह्न से अगले आदेशों तक राष्ट्रीय तकनीकी प्रसुविधा संगठन में अध्यक्ष तथा भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में महर्षि नियुक्त करते हैं।

सी० ए० सुब्रमण्यम, उपसचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर-560 094, दिनांक 26 मई 2003

शुद्धिपत्र

सं० 3/1(1)/2003-I—इस विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम के चार अधिकारियों की पदोन्नतियाँ अधिसूचित करने के संबंध में जारी इस विभाग के दिनांक 10-4-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में क्रम सं० 2 डॉ० नीलकण्ठ पिल्लै, चिकित्सा अधिकारी-एस०एफ० उनके नाम के सामने विद्यमान दिनांक "01-3-2003" को छुपया "1-1-2003" पढ़ा जाए।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वार्द्ध से आगामी देश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	एन सुभाष चन्द्र राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	आर० एन० भट्टचार्य	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3.	डी० वेंकटेश्वर राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
4.	पी० टी० पलनी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
5.	टी० श्रीमन्तारायण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी
6.	आर० वेंकटसुब्रमण्यम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० ई० को वैज्ञानिकों/

इंजीनियरों एस० एफ० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. एस० जी० आदिकेशवन
2. वी० अरुणाचलम
3. एन० भुजंग राव
4. जी० ग्रहदोरै
5. एस० कल्याणम
6. पी० वी० शिवकुमार
7. ए० सैय्यद हमीद
8. जे० वेंकटेश्वर राव
9. एम० कृष्णन
10. वी० वी० अप्पाराव

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० की वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० ई० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2003 के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री श्रीमती/कु०

1. वी० धनराज
2. जी० सूर्यनारायण
3. मधुसूदन दत्त
4. एम० एम० वी० धनन्जय राव
5. टी० वी० रामकृष्णन
6. पी० बालकोटया
7. जी० कृष्ण कुमारी
8. डब्ल्यू० श्रीधर
9. वी० वेंकटेश्वरन
10. के० शिवप्रसाद
11. एस० के० शर्मा
12. के० राजेन्द्रबाबू

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2003-I :—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस सी को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी०

के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु

1. एम० सत्य राव
2. एन० श्रीनिवास बाबू
3. भो० गयाज अहमद
4. पी० मृत्युंजय राजू
5. एम० जेषपाणी
6. के०के०एस०बी०वी० प्रकाश राव
7. वी० दयालन
8. बी०जे० चित्त
9. टी०आर० विन्नी
10. बी० कुमार दाबु
11. आर० मुरलीधरन

के०एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०सी० के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु०

1. आर० रामकृष्ण मूर्ति
2. बी० पोतुराजू
3. अरुणा भास्कर

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(2)/2003-I—अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पदों से दिनांक 30-04-2003 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्रम सं०	नाम	पद
----------	-----	----

श्री/श्रीमती/कु०

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | डॉ० बी० वीरराजू | वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०जी० |
| 2. | के० सुब्ब राव | वरिष्ठ लेखा अधिकारी |

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों एस०सी० के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक

के सामने दी गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
----------	-----	-------------------

श्री/श्रीमती/कु

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | राहुल मिश्र | 25-4-2003 |
| 2. | एस० संजीव रेड्डी | 24-4-2003 |
| 3. | प्रशान्त कुलश्रेष्ठ | 16-4-2003 |
| 4. | एम० गणेशन | 25-4-2003 |

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०सी० के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
----------	-----	------------------

श्री/श्रीमती/कु

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | सुरेश कुमार कूरमी | 11-4-2003 |
| 1. | दीपक मिश्र | 21-4-2003 |

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(2)/2003-I—श्री एच० डी० पाटील ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के सी० ई० डी० अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी के पद का कार्यभार दिनांक 30-4-2003 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(2)/2003-I—श्री रामचन्द्रन एस० ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी० के पद का कार्यभार दिनांक 30-4-2003 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

दिनांक 28 मई 2003

गृह मंत्रालय

सं० 5/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०सी० के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दो गयी तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	नवनीत गुप्ता	28-04-2003
2.	जागमणि टी०	07-05-2003

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री चि० एच० मदन मोहन को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी० के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 29-04-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2003

सं० ए-12025/1/98-प्रशा०-5—योजना आयोग के दिनांक 12 अगस्त, 2002 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, भारत सरकार के क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, कोलकाता के सूचना सहायक श्री बी० बी० मुखोपाध्याय की योजना आयोग में प्रोटीकोल अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति को, राष्ट्रपति, 12-02-2003 से और छः महीने के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2003

सं० ए-19018/1/2003-प्रशा० IV—इस मंत्रालय के दिनांक 2-4-2003 के आदेश सं० 12015/2/जेएजी/2003 आईएनएस के अनुसरण में राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित वरिष्ठ समयमान अधिकारियों को 2-4-2003 से अगले आदेशों तक 12000-375-16500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री बी० के० त्यागी
2.	श्री के० एन० खन्ना

बी० के० कपूर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 2003

सं० 14016/27/89-यूटीएस-II—दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा नियम, 1971 के नियम 5 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार संयुक्त सचिव (यू० टी०), गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस में निरीक्षक श्री शुरवीर सिंह को 6 अप्रैल, 1992 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के ग्रेड-II में नियुक्त करते हैं। इस नियुक्ति के बाद उनका नाम गृह मंत्रालय की दिनांक 8 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना सं० 14016/27/89-यू०टी०एस० में श्री वेद प्रकाश के नाम के नीचे और श्री पुरुषोत्तम पुम्गल के नाम के ऊपर क्रम सं० 64-नं० पर रखा जाएगा।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 22 मई 2003

सं० 14046/235/2002-यू० टी० एस०-II—संयुक्त सचिव (यू०टी०), गृह मंत्रालय ने दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा के ग्रेड-II अधिकारी श्री बी० एम० शर्मा के दिनांक 20 मार्च, 2003 के स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अनुसार 1-7-2003 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2003

सं० 20/जी/2481-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री उमंग नरुला, भा० प्र० से० (अम्मू व कश्मीर:89) को गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में दिनांक 27 मई, 2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री उमंग नरुला की गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्ति 30-6-2003 तक रहेगी। वे दिनांक 1-7-2003 से 31-3-2004 तक अथवा अगले आदेशों तक गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त रहेंगे।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2003

सं० 13017/44/2001-अ० भा० से० (I)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(I) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके, पंजाब की राज्य-सरकार और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा मध्य राज्य क्षेत्र के संवर्ग-नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से, श्री कर्ण ए० सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : पंजाब 84) की चण्डीगढ़ प्रशासन में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति के क्रम में उनकी प्रतिनियुक्ति दिनांक 3-7-2004 तक जारी रखनी अनुमोदित करती है।

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2003

सं० 14015/5/2000-अ० भा० से०-I (क)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश-संवर्ग में वर्ष 2000 के दौरान मौजूद 12 रिक्तियाँ भरने के लिए चयन समिति द्वारा अपनी दिनांक 30/31-10-2001 को हुई बैठक में तैयार की गई, उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त चयन सूची अनुमोदित कर दी है:—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	जन्म की तारीख
(श्री/सर्वश्री)		
1.	हरदेव सिंह	1-8-1947
2.	उमेश कुमार मिश्रा	1-7-1948
3.	दयाल सिंह नाथ (अनुसूचित जाति)	10-4-1947
4.	शंकर लाल जायसवाल	1-1-1949
5.	राम सुरत दूबे	1-11-1949
6.	चानार राम (अनुसूचित जाति)	7-1-1946
7.	सोहन लाल (अनुसूचित जाति)	8-9-1946
8.	गिरधारी लाल (अनुसूचित जाति)	10-12-1946
*9.	ए०वी०एस० सक्सेना	15-7-1947
10.	एम० एस० सिद्दीकी	10-1-1946
11.	डी०एन० दुबे	15-1-1949
12.	आर०एन० त्रिपाठी	18-2-1949

*क्र०सं० 9 पर दर्शाया गया नाम, राज्य सरकार द्वारा गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियाँ, रिपोर्ट में से निकाल दिए जाने की शर्त पर, अंतिम रूप से सम्मिलित किया गया है।

3. यह अधिसूचना, कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय,

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 17-6-2002 की समसंख्यक अधिसूचना को अधिकांत करके जारी की जा रही है।

वाई० पी० ढींगरा, अवर सचिव

सं० 14015/5/2000-अ० भा० से०-I (ख)—कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक जून 17, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करके, सर्वश्री हरदेव सिंह, शंकर लाल जायसवाल और सोहन लाल की भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर नियुक्ति, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से वि-अधिसूचित की जाती है। अविभाजित उत्तर प्रदेश-राज्य-सिविल सेवा के इन सदस्यों ने उपर्युक्त सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी है और उपर्युक्त सेवा से आगे अपनी किसी पदोन्नति का कोई भी दावा नहीं करने का वचन दिया है।

2. इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम-9 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राष्ट्रपति, अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य-सिविल सेवा के सदस्यों-सर्वश्री एम० ए० सिद्दीकी, डी० एन० दुबे और आर० एन० त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-5 के उप-नियम (1) के अनुसार उन्हें उत्तर प्रदेश संवर्ग में आवंटित करते हैं।

3. जून 17, 2002 की उपर्युक्त समसंख्यक अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्तियाँ और यह अधिसूचना श्री हरिपाल सिंह द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में दायर रिट याचिका संख्या 288(एस० वी०)/2000 के निष्कर्ष के अधीन है।

यशपाल ढींगरा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2003

सं० डी-III/460/सी एफ-4/2003—भारत के राष्ट्रपति ने श्री अब्दुल करीम बिन सईद अलजहानी की मुम्बई में सऊदी अरब के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अब्दुल करीम बिन सईद अलजहानी के कौंसली क्षेत्राधिकार में मुम्बई शहर और भारत के दक्षिणी-पश्चिमी राज्य होंगे।

प्रभात कुमार, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2003

सं० ए-38012/1/2003-प्रशा-II-राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़ के सहायक आयुक्त श्री अमर जीत सिंह गिल की दिनांक 4-3-2003 (अपराह्न) से भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, ग्रुप "क" में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2003

सं० 2003 का 5 सं० पी०एफ०/756/83-प्रशा०-II-राष्ट्रपति जी, सीमा शुल्क, कोलकाता के अतिरिक्त आयुक्त श्री एस० एन० घोष द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत दी गई दिनांक 24-03-2003 (पूर्वाह्न) से भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, ग्रेड "क" से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने की नोटिस को स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 14 मई 2003

सं० 6-राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा 2001 के निम्नलिखित सफल उम्मीदवारों को भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, ग्रुप "क" में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से और अगले आदेश होने तक परिवर्धितियों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/सर्वश्री	
1.	शुश्री पूना कुलकर्णी	26-12-2002
2.	प्रशान्त कुमार	-वही-
3.	प्रभजीत सिंह गुलाटी	-वही-
4.	नीलकंठ एन० शैलेश	-वही-
5.	डा० (शुश्री) मंजुला डी० होसमानी	-वही-
6.	शुश्री फराह इकबाल	-वही-
7.	संजय गोयल	-वही-
8.	शुश्री दीप्ति जयराम	-वही-
9.	वैकटेश टी० जी०	-वही-
10.	विकास कुमार	-वही-
11.	नवराज गोयल	-वही-
12.	अमिष कुमार गुप्ता	-वही-
13.	शुश्री रितु सेन	-वही-

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
14.	कला कान्त सिंह	26-12-2002
15.	बाबु ए०	-वही-
16.	विजय कुमार सिंह	-वही-
17.	बी० जयशाला सुन्दरी	-वही-
18.	निखिल प्रभाकर मेहरम	-वही-
19.	प्रसाद अदेली	-वही-
20.	मोहन कुमार मीणा	-वही-

के० किपगेन, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 08 मई 2003

सं० ए० 12011/21/2002-प्रशा० 2-सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में वित्त राज्यमंत्री (व्यय, बैंकिंग व बीमा) (आनंदराव वी० अडसुल) के अपर निजी सचिव श्री नरेश आत्माराम घाग का इस्तीफा दिनांक 08 अप्रैल, 2003 के अपराह्न से स्वीकार किया जाता है।

ओ० पी० शर्मा, डेस्क अधिकारी

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2003

19011/233/2003-स्थापना-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ० प्र० : 77) के अधिकारी, श्री जी० सी० चतुर्वेदी को 26 मई 2003 के पूर्वाह्न से 18,400-500-22,400 रु० के वेतनमान में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग में पद का कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2003

सं० ए-19019/1/79-प्रशा०-II-अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में अपर निदेशक, श्री जेम्स थोमस 31 मई 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

मोहिन्दर कुमार, अवर सचिव

सं० ए-20011/3/79 प्रशा०-II—अधिवर्षिता-आयु प्राप्त करने पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में उप निदेशक, श्री एम० एस० विरधी 31 मई 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

मोहिन्दर कुमार, अवर सचिव

सं० ए-20011/6/83-प्रशा II—अधिवर्षिता-आयु प्राप्त करने पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में उप निदेशक, श्री एन०एन० भारद्वाज 31 मई, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

मोहिन्दर कुमार, अवर सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मई, 2003

सं० पी एफ जी/410/81-प्रशा II—भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी, श्री वी०एन० हरीश का स्थानान्तरण होने पर उन्होंने 8-11-2002 के अपराह्न से शासकीय समापक बंगलौर के कार्यालय से शासकीय समापक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी श्री वी०एन० हरीश को 11-11-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पी एफ जी/(551)/96-प्रशा० II—भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री एच० एस० वर्मा का स्थानान्तरण होने पर उन्होंने 1 अप्रैल, 2002 के पूर्वाह्न से कम्पनी रजिस्ट्रार ग्वालियर के कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री एच० एस० वर्मा को 10-10-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक शासकीय समापक उच्च न्यायालय पटना के कार्यालय में शासकीय समापक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पी एफ जी/447/84-प्रशा०-II—भारतीय कंपनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी श्री पी० रामा राव का स्थानान्तरण होने पर उन्होंने 21-11-2002 के अपराह्न में प्रादेशिक निदेशक, मुम्बई के कार्यालय में उप निदेशक (तकनीकी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी श्री पी० रामा राव को 21-11-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक शासकीय समापक बंगलौर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(640)/2002-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह को 5-3-2003 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान में (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार सिंह को 5-3-2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार कटक में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पी०एफ०जी०/(645)/2002-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति द्वारा श्री रमेश चन्द्र मिश्रा को 25-11-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री रमेश चन्द्र मिश्रा को 25-11-02 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार जयपुर में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(647)/2002-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति, श्री संजय यादव को 3-12-2002(पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समय मान (लेखा शाखा) में नियुक्त कर है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री संजय यादव को 3-12-2000 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार मुम्बई के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(648)/2002-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति, श्री शशि राज दारा को 01-11-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री शशि राज दारा को 01-11-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी रजिस्ट्रार अहमदाबाद के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2003

सं० ए-12023/5/2003-ई II—राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती गुरमीत भारद्वाज (अनुसूचित जाति) सी०एस०एस०एस० की आशुलिपिक ग्रेड "सी" (वैयक्तिक सहायक) को दिनांक 26 मई, 2003 के पूर्वाह्न से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में वर्ष 2000 की सी०एस०एस०एस० स्ट्रेनोग्राफर ग्रेड ए एवं बी (आमेलित) (निजी सचिव) की चयन सूची में शामिल किया जाता है।

एम० पी० द्विवेदी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2003

सं० 11/29/95-ईपी (एपी IV)—राष्ट्रपति द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अध्यक्ष के पद पर श्री अनिल स्वरूप आई ए एस (उ० प्र० 81) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 13 अप्रैल, 2003 के बाद दो महीनों के लिए या उनके उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

अनुप के० ठाकुर, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा बसा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2003

सं० ए-20011/1/2002-स्था० I—राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा बसा निदेशालय में सहायक निदेशक, श्री सी० पी० वर्मा को उसी संगठन में 13-5-2003 से 30 जून, 2003 तक तदर्थ आधार पर उप निदेशक के रूप में 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 21 मई 2003

सं० ए-32013/1/2002-प्रशा० 1(ए)—इस विभाग की दिनांक 30 सितम्बर, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, श्री पी० के० सोमसुन्दरम, कनिष्ठ विश्लेषक की 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक "बी" के रूप में 5-4-2003 से 4-10-2003 तक छः मास की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली 110016, दिनांक 26 मई 2003

सं० ए-19014/6/88-प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, डा० पी० गोविंदा राव, वैज्ञानिक "एफ", विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत उनके स्वच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार किए जाने पर 26 मई, 2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति करते हैं।

बी० के० मन्थन, डैस्क अधिकारी

दिनांक 30 मई 2003

सं० ए-19011/6/82-प्रशा०-1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में डॉ पी० के० बी० मेनन, वैज्ञानिक "जी" तथा प्रमुख (एन ई बी) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31-5-2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त करते हैं।

बी० के० मन्थन, डेस्क अधिकारी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 अप्रैल 2003

सं० 12026/7/2001-भा० व० सेवा-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के 1969 बैच के अधिकारी श्री विनोद ऋषि को इस मंत्रालय में 7 अप्रैल, 2003 अपराह्न से उनकी अधिवर्षिता आयु होने तक अर्थात् 31-12-2006 या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 मई 2003

सं० ए-39012/15/96-सी० एच० एस०-I--डॉ रितु प्रताप द्वारा, अपने त्याग-पत्र के स्वीकार किए जाने के परिणाम-स्वरूप 5 नवम्बर 1996 के अपराह्न को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया गया माना जाता है।

दिनांक 14-6-1996 से 5-11-1996 तक उनकी अनुपस्थिति की अवधि 'अकार्य दिवस' के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2003

सं० पी एफ/एस-152 प्रशा I (स्था०-III) कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 नवम्बर, 2002 के आदेश सं० 5/6/2002-ई ओ (एस एम०I) के अनुसरण में श्री एस०एस० बरार, आई ए एस (पंजाब : 77) ने परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 1-2-12-2002 पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

महेश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2003

सं० 29-7/2001-पौध संरक्षण-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सीधी भर्ती (हायक निदेशकों (पादप रोगविज्ञान) (8000-15500/-र०) को उनके नाम के सूक्ष्म निर्दिष्ट तिथियाँ से पदोन्नति आधार पर 10,000-15000/-र० के पैनमान में उप निदेशक (पादप रोग विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

1. डॉ० के० सी० गुप्ता - 3-3-2003 (पूर्वाह्न)

2. डॉ० एन० सत्यनारायण - 28-2-2003 (पूर्वाह्न)

उपरोक्त अधिकारियों की उप निदेशक (पादप रोगविज्ञान) के पद पर पदोन्नति डॉ० सी०एम० श्रीवास्तव, पौध संरक्षण अधिकारी (पद संरक्षण), केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबंधन केन्द्र, गोरखपुर बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ०ए०सं० 430/02 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अधीन है।

सतवन्त सिंह, अवर सचिव

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2003

सं० 19-265/73-एलडी 2/ए-3--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री के०एन० अरोडा, निदेशक क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, हिसार 31 मई, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं।

राधा मणि, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2003

सं० 16011/11/2002-एस सी डी -4--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की अधिसूचना फा० सं० 16011/2/2002-एस सी डी-4, दिनांक 16-9-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ० सी० एस० प्रसाद (आई ई एस : 69) अपर विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को श्री सुरेश चंद्रा के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० ए० सिद्धिकी, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 मार्च 2003

सं० ए-32014/3/2003-प्रशा०-II-- इस विभाग की दिनांक 30-4-2002 एवं 18-2-2003 की अधिसूचना सं० ए-32014/2/97-प्रशा०-II, तथा दिनांक 13-2-2003 की अधिसूचना सं० ए-32014/18/99-प्रशा०-II के अनुक्रम में

राष्ट्रपति दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को इसी विभाग में उनके नामों के नामने दर्शायी गई अवधि या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा अपने आदेशों तक, जो भी पहले हो के लिए 6500-10,500/- रु० के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में बने रहने को अनुमति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम	अवधि
	से	तक
सर्व/श्री		
1.	सुमन चटर्जी	1-4-2003 30-6-2002
2.	आ० एस० सौलंकी	1-4-2003 30-6-2003
3.	पीतम्बर साहू	1-4-2003 30-6-2003
4.	जगदीश कुमार	1-4-2003 30-6-2003
5.	परिमल कुमार	1-4-2003 30-6-2003
6.	सुनील कुमार अप्रवाल	1-4-2003 30-6-2003
7.	राजेन्द्र कुमार	1-4-2003 30-6-2003
8.	सुरेन्द्र ठाकुर	1-4-2003 30-6-2003
9.	राबिन सरकार	1-4-2003 30-6-2003
10.	राजीव कुमार जैन	1-4-2003 30-6-2003
11.	संतोष कुमार	1-4-2003 30-6-2003
12.	महेन्द्र नाथ	1-4-2003 30-6-2003
13.	भूपेन्द्र सिंह	1-4-2003 30-6-2003
14.	रमेश कुमार	1-4-2003 30-6-2003
15.	राजेन्द्र कुमार जाटव (अ०जा०)	1-4-2003 30-6-2003
16.	रामस्वरूप	1-4-2003 30-6-2003
17.	हरीराम (अ०जा०)	1-4-2003 30-6-2003
18.	गुरदयाल सिंह (अ०जा०)	1-4-2003 30-6-2003
19.	रवि दत्त	1-4-2003 30-6-2003
20.	एल० आर० गुलाटी	11-4-2003 30-6-2003
21.	डी० आर० माणा (अ०ज०जा०)	6-12-2002 15-4-2003

उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति से कर्मचारियों की अनुभाग अधिकारी, ग्रेड में बने रहने, नियमित होने या वरिष्ठता पाने का कोई अधिकारी नहीं होगा।

सतीश वधवा, अवर सचिव

दिनांक 17 अप्रैल 2003

सं० क-32014/18/96-प्रशा० II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री रमेश कुमार को इसी विभाग में 6500-10,500/- रु० के वेतनमान वाले अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 16/4/2003 के पूर्वाह्न से तीन महीने की अवधि या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हो जाने तक या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

1. उपयुक्त तदर्थ नियुक्ति से उक्त कर्मचारी को अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में कार्य करते रहने, नियमितकरण या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशा०-II)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अप्रैल 2003

सं० 41-04/2001-प्रशा०-I/IV--राष्ट्रपति जी बेतार आयोजना एवं समन्वय विग/अनुश्रवण संगठन, दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित इंजीनियरों को इसी विभाग में 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, बतौर सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर स्थानापन्न रूप में उनके नामों के आगे उल्लिखित अवधियों के लिए अथवा नियमित आधार पर उक्त पदों के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, कार्य करते रहने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	से	तक
1.	श्री पी० डी० अम्बाड़े	31-12-02	29-06-03
2.	श्री गुलाब चन्द	21-12-02	20-06-03
3.	श्री एन० के० भोला	01-01-03	30-06-03
4.	श्री आर० परमानाथन	14-01-03	13-07-03
5.	श्री के० एस० कंडारी	17-01-03	16-07-03
6.	श्री वीरेश गोयल	23-01-03	22-07-03

पी० मुरलीधरन, अवर सचिव (प्रशा०-IV)

दिनांक 2 मई 2003

सं० 41-15/2003-प्रशासन-4—दोंगा राज्य में एशिया पैसिफिक टेलीकॉम्युनिटी स्पेक्ट्रम प्रबन्धन और कीमत निर्धारण में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु चयन हो जाने पर श्री अनिल कुमार, उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण) दूरसंचार विभाग को विदेश सेवा संबंधी निबंधन और शर्तों पर दो सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु दिनांक 2 मई 2003 अपराह्न से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप श्री अनिल कुमार को दिनांक 2 मई, 2003 अपराह्न से प्रभारी इंजीनियर/सहायक बेतार सलाहकार के उनके नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

पी० मुरलीधरन, अवर सचिव (प्रशा०-IV)

नई दिल्ली-1 दिनांक 5 मई 2003

सं० 41-13/99-I/IV-प्रशा०-राष्ट्रपति, बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध/बेतार अनुश्रवण संगठन, दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित उप-बेतार सलाहकारों/उप निदेशकों (बेतार अनुश्रवण) को इसी विभाग में संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण) के पद पर स्थानापन्न रूप में 18400-500-22400/- रुपये के वेतनमान में उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधियों के लिए उर्ध्व आधार पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नाम	से	तक
श्री एस० बालकृष्णन	15-10-2002	21-10-2002
श्री बी० चौधरी	1-9-2002	21-10-2002

एन० मुखर्जी, अवर सचिव (प्रशा०-IV)

दिनांक 9 मई 2003

सं० पीएफ-420/-प्रशा० I/IV-भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में विभागेतर सेवा संबंधी शर्तों पर दिनांक 4-5-2001 से दो वर्ष की अवधि के लिए उप-सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने पर, श्री टी० के० बरदाहणन ने दिनांक 5-5-03 की पूर्वाह्न से 400/- रुपये प्रतिमाह के विशेष घेतन सहित 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में डब्ल्यू पी सी स्कंध, दूरसंचार

विभाग में सहायक बेतार सलाहकार के पद पर कार्यग्रहण कर लिया है।

एन० मुखर्जी, अवर सचिव (प्रशा०-IV)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2003

सं० ई आर बी-I/2003/2/38-श्री के० विस्वाल, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के निदेशक ग्रेड अधिकारी (वेतनमान 14,300-18300/- रु०) को 19-5-2003 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान 18,400-22,400/- रु०) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

आर० आर० जाखार, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2003

सं० ए-32013/7/2000 स्था II-राष्ट्रपति, श्री शिरिषेल्ल विजय कुमार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 12-05-2003 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

नरेण चन्द्र कौशिक, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 31st May 2003

No. A. 34011/2/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Mam Raj Singh, Section Officer, as Under Secretary in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 2 June, 2003, on ad hoc basis.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd June 2003

No. RS/6 (iv)/2003/21-Perl.—The services of Shri Prashant Kumar who was appointed as Senior Private Secretary on co-terminous basis in the personal staff of Chairman, House Committee, Rajya Sabha stand terminated with effect from the afternoon of the 31st May, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/6 (iv)/2003/22-Perl.—Shri Anwar has been temporarily appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the personal staff of Chairman, House Committee, Rajya Sabha w.e.f. the forenoon of the 1st June, 2003, until further orders.

2. The appointment of Shri Anwar is at the discretion of the present Chairman, House Committee, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of this office.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110066, the 28th May 2003

No. A-11011/12003-Ad.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Bedi, (RAS: 66) as Chairman, National Technical Facilities Organisation and ex-officio Secretary to the Government of India in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the afternoon of 28th March, 2003 until further orders.

C. A. SUBRAMANIAN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 26th May 2003

CORRIGENDUM

No. 3/1(1)/2003-I.—In Partial modification of this Department's Notification of even number dated 10-4-2003 notifying the promotion of 4 Officers of Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space the date appearing as "01-03-2003" against Sl. No. 2, Dr. S. Neelakanta Pillai, Medical Officer-SF therein may please be read as "01-01-2003".

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1) 2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 1-1-2003 and until further orders :

Shri/Smt./Kum.

1. N. Subhash Chandra Rao Scientist/Engineer-G, Scientist/Engineer-H.
2. R. N. Bhattacharya Scientist/Engineer-G, Scientist/Engineer-H.
3. D. Venkateswara Rao, Scientist/Engineer-SG, Scientist/Engineer-G.
4. P. T. Palani Scientist/Engineer-SG, Scientist/Engineer-G.
5. T. Sreemannarayana Scientist/Engineer-SF, Scientist/Engineer-SG.
6. R. Venkata Subramanyam Scientist/Engineer-SF, Scientist/Engineer-SG.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SF in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders.

Shri/Smt./Kum.

1. S. G. Audikesavan
2. V. Arunachalam
3. N. Bhujanga Rao
4. G. Grahadurai
5. S. Kalyanam
6. P. V. Sivakumar
7. A. Syed Hameed
8. J. Venkateswara Rao
9. M. Krishnan
10. B. V. Appa Rao

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders.

Shri/Smt./Kum.

1. V. Dhanaraj
2. G. Suryanarayana
3. Madhu Sudan Dutta
4. M. M. V. Dhanunjaya Rao
5. T. V. Ramakrishnan
6. P. Balakotaiah
7. G. Krishna Kumari
8. W. Sridhar
9. V. Venkateswaran
10. K. Sivaprasad
11. S. K. Sharma
12. K. Rajendrababu

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders.

Shri/Smt./Kum.

1. M. Satya Rao
2. N. Srinivas Babu
3. M. D. Gayaz Ahmed
4. P. Mrutyunjaya Raju
5. M. Seshaphani
6. K. K. S. V. V. Prakasa Rao
7. V. Dhayalan
8. V. J. Chithra
9. T. R. Binny
10. B. Kumar Babu
11. R. Muralidharan

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SB as Scientists/Engineer-SC in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders.

Shri/Smt./Kum.

2. B. Pothuraju
3. Aruna Bhaskar

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(2)/2003-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the 30-04-2003.

Sl. No., Name, Post

Shri/Smt./Kum.

1. Dr. V. Veerajuu, Scientist/Engineer-SG.
2. K. Subba Rao, Sr. Accounts Officer.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Shri/Smt./Kum.

1. Rahul Mishra, 25-04-2003.
2. S. Sanjeeva Reddy, 24-04-2003.
3. Prashant Kulshreshtha, 16-04-2003.
4. M. Ganesan, 25-04-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Shri/Smt./Kum.

1. Suresh Kumar Kurmi, 11-04-2003.
2. Deepak Mishra, 21-04-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(2)/2003-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri H. D. Patil, Scientist/Engineer-SD in the CED, Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30-04-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(2)/2003-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri Ramachandran. S, Scientist/Engineer-SG in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30-04-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

The 28th May 2003

No. 5/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Shri/Smt./Kum

1. Navneet Gupta—28-04-2003
2. Nagamani. T—07-05-2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint Shri Ch. Madan Mohan as Scientist/Engineer-SC in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 29-04-2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 27th May 2003

No. A-12025/1/98-Adm.V.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 12th August, 2002, the President is pleased to extend the period of deputation of Shri B. B. Mukhopadhyay, Information Assistant of the Government of India Regional Tourist Office, Kolkata, as Protocol Officer in the Planning Commission for a further period of six months w.e.f. 12-2-2003 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 2nd June 2003

No. A-19018/1/2003-AD.IV.—In pursuance of this Ministry's Order No. 12015/2/JAG/2003-ISS dated 2-4-2003, the President is pleased to appoint the following Senior Time Scale (STS) officers of ISS to Junior Administrative Grade (JAG) of the service on regular basis w.e.f. 2-4-2003 in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- until further orders :—

1. Shri B. K. Tyagi
2. Shri K. N. Dutta

V. K. KAPOOR, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 12th May 2003

No. 14016/27/89-UTS-II.—In terms of Clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 5 of the Delhi, Andaman & Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri Shoorvir Singh, Inspector Delhi Police to Grade-II of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service with effect from 6th April, 1992. On such appointment, his name will appear at Sl. No. 64-A below the name of Shri Ved Prakash and above the name of Shri Purushottam Puggal in the Ministry of Home Affairs Notification No. 14016/27/89-UTS dated 8th April, 1992.

N. J. THOMAS, Under Secy.

The 22nd May 2003

No. 14046/235/2002-UTS. II.—Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has accepted the notice of voluntary retirement dated 20th March, 2003 served by Shri B. M. Sharma, Grade-II officer of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service and has permitted him to voluntarily retire from Service with effect from 1-7-2003, in terms of Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 30th May 2003

No. 20/G/2481-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Umang Narula, IAS (J&K : 89), as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 27th May, 2003.

2. The appointment of Shri Umang Narula as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs will continue up to 30-06-2003. He will be appointed as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from 01-07-2003 till 31-03-2004 until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 27th May 2003

No. 13017/44/2001-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and the concurrence of the Government of Punjab and Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT, the Central Govt. hereby accords approval for continuation of deputation of Shri Karan A. Singh, IAS (RR : PB : 84) to AGMUT cadre for appointment as Finance Secretary under the Chandigarh Administration upto 3-7-2004.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 2nd June 2003

No. 14015/5/2000-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List containing the names of the following members of the State Civil Service belonging to Uttar Pradesh prepared by the Selection Committee in its meeting held on 30/31-10-2001, towards filling up twelve existing vacancies in the Uttar Pradesh cadre of the Indian Administrative Service during 2000 :—

S. No., Name of the Officer & Date of Birth

(S/Shri)

1. Hardev Singh—01-08-1947
2. Umesh Kumar Mittal—01-07-1948
3. Dayal Singh Nath (SC)—10-04-1947
4. Shankar Lal Jayaswal—01-01-1949
5. Ram Surat Dubey—01-11-1949
6. Chanar Ram (SC)—07-01-1946
7. Sohan Lal (SC)—08-09-1946
8. Girdhari Lal (SC)—10-12-1946
9. S. V. S. Saxena—15-07-1947
10. M. A. Siddiqui—10-01-1946
11. D. N. Dubey—15-01-1949
12. R. N. Tripathi—18-02-1949

The name at S. No. 9 has been included provisionally, subject to expunction of adverse remarks by the State Government.

2. This issues in supersession of Ministry of Personnel, Public Grievance & Pensions, Department of Personnel & Training's notification of even number dated 17-06-2002.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. 14015/5/2000-AIS(1)-B.—In partial modification of Ministry of Personnel, P. G. & Pensions, Department of Personnel and Training Notification of even number dated 17th June, 2002, appointment of S/Shri Hardev Singh, Shankar Lal Jayaswal and Sohan Lal to the Indian Administrative Service on probation is hereby de-notified with immediate effect. These members of the undivided State Civil Service of Uttar Pradesh have indicated their unwillingness to join the Service and have undertaken not to stake a claim to any future promotions in the Service.

2. Further, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1955, the President is pleased to appoint S/Shri M. A. Siddiqui, D. N. Dubey and R. N. Tripathi, member of the undivided State Civil Service of Uttar Pradesh to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Uttar Pradesh cadre, under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

3. The appointments made vide the notification of even number dated 17th June, 2002 and this notification are subject to the outcome of W. P. No. 288 (SB)/2000 filed by Shri Harpal Singh in Allahabad High Court, Lucknow Bench.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd May 2003.

No. D.II/460/CF-4/2003.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Abdul Karim Bin Saeed Aljuhni as Consul General of the Kingdom of Saudi Arabia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Abdul Karim Bin Saeed Aljuhni comprises the city of Mumbai and South Western States of India.

PRABHAT KUMAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th March 2003

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 03 Of 2003 (F No. A-38012/1/2003-Ad.II).—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri Amarjit Singh Gill, Asst. Commissioner of Central Excise, Chandigarh from the Indian Customs & Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 04-03-2003 (A.N.).

K. KIPGEN, Under Secy.

The 9th May 2003

No. 5 Of 2003 (F. No. PF/756/83-Ad. II).—The President is pleased to accept the notice given by Shri S. N. Ghosh, Additional Commissioner of Customs & Central Excise Kolkata seeking voluntary retirement from Indian Customs & Central Excise Service, Gr. 'A' w.e.f. 24-03-2003 (F.N.) under rule 48 of CCS (Pension) Rules 1972.

K. KIPGEN, Under Secretary

The 14th May 2003

No. 6 (F.No. A-12025/05/2002-Ad.II).—The President is pleased to appoint the following successful candidates of Civil Service Examination-2001 as Probationers in the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A' with effect from the dates indicated against their names and until further orders :—

Sl. No., Name and Date of assumption of Charge

S/Shri

1. Ms. Pooja Kulkarni—26-12-2002
2. Prashant Kumar—26-12-2002
3. Prabhjeet Singh Gulati—26-12-2002
4. Nilkanth N. Shelake—26-12-2002
5. Dr. (Ms.) Manjula D. Hosmani—26-12-2002
6. Ms. Farah Iqbal—26-12-2002
7. Sanjay Goel—26-12-2002
8. Ms. Deepthi Jayaraj—26-12-2002
9. Venkatesh T. G.—26-12-2002
10. Vikas Kumar—26-12-2002
11. Navraj Goyal—26-12-2002
12. Amish Kumar Gupta—26-12-2002
13. Ms. Ritu Sain—26-12-2002
14. Kala Kant Singh—26-12-2002
15. Babu A.—26-12-2002
16. Vijay Kumar Singh—26-12-2002
17. B. Jayabala Sundari—26-12-2002
18. Nikhil Prabhakar Meshram—26-12-2002
19. Prasad Adelli—26-12-2002
20. Mohan Kumar Meena—26-12-2002

K. KIPGEN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 8th May 2003

No. A-12011/21/2002-Admn. II.—The Competent Authority in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs hereby accepts the resignation of Shri Nareh Atmaram Ghag as Additional Private Secretary to Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) (Shri Anandrao Vitthoba Adsul) w.e.f. afternoon of 8th April, 2003.

O. P. SHARMA, Desk Officer

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 27th May 2003

No. A-19011/233/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri G. C. Chaturvedi, IAS (UP : 77) as Joint Secretary in the Banking & Insurance Division of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 26th May, 2003 in the Scale of Pay of Rs. 18,400-500-22,400/- for a period of five years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 30th May 2003

No. A-19019/1/79-Ad. II.—On attaining the age of superannuation, Shri James Thomas, Additional Director in the Staff Inspection Unit of Ministry of Finance, Department of Expenditure will stand retired from Government service on the afternoon of 31st May, 2003.

MOHINDER KUMAR, Under Secy.

No. A-2001/3/79-Ad. II.—On attaining the age of superannuation, Shri M. S. Birghi, Deputy Director in the Staff Inspection Unit of Ministry of Finance, Department of

Expenditure will stand retired from Government service on the afternoon of 31st May, 2003.

MOHINDER KUMAR, Under Secy.

No. A-20011/6/83-Ad. II.—On attaining the age of superannuation, Shri N. N. Bhardwaj, Deputy Director in the Staff Inspection Unit of Ministry of Finance, Department of Expenditure will stand retired from Government service on the afternoon of 31st May, 2003.

MOHINDER KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 29th May 2003

No. PFG (410) 81-AD. II.—On his transfer, Shri B. N. Harish, a Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished the charge of the post of Official Liquidator in the Office of Official Liquidator, Bangalore in the afternoon of 08-11-2002.

2. In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri B. N. Harish, a Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Registrar of Companies Ahmedabad with effect from the forenoon of 11-11-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG (551)/96-AD.II.—On his transfer, Shri H. S. Verma, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Assistant Registrar of Companies in the office of Registrar of Companies, Gwalior in the forenoon of 1st April, 2002.

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (1) (a) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri H. S. Verma, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Official Liquidator in the office of Liquidator, High Court, Patna with effect from the forenoon of 10-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG (447) 84-AD.II.—On his transfer, Shri P. Rama Rao, a Senior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished the charge of the post of Deputy Director (Tech.) in the Office of Regional Director, Mumbai in the afternoon of 21-11-2002.

2. In exercise of the powers conferred by sub-Section (1)(a) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri P. Rama Rao, Senior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Official Liquidator, Bangalore with effect from the forenoon of 22-11-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG (640)/2002-AD. II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Debender Kumar Singh in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 05-03-2003 (F/N).

2. In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Debender Kumar Singh, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of RoC, Cuttack with effect from the forenoon of 05-03-2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(645)/2002-AD-II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Chandra Mishra in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 25-11-2002 (F/N).

2. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Ramesh Chandra Mishra a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Jaipur with effect from the forenoon of 25-11-2002 until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(647)/2002-AD-II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Yadav in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 3-12-2002 (F/N).

2. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Sanjay Yadav, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Mumbai with effect from the forenoon of 3-12-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(648)/2002-AD-II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Shashi Raj Dara in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 1-11-2002 (F/N).

2. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Shashi Raj Dara, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Ahmedabad with effect from the forenoon of 01-11-2002 until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 28th May 2003

No. A-12023/5/2003-E.II.—The President is pleased to include Smt. Gurmeet Bhardwaj, (SC) Stenographer Grade 'C' of CSSS (Personal Assistant) in the Select List of Stenographer Grade A&B (merged) (Private Secretary) of CSSS for the Select List year 2000 in the cadre of the Department of Commerce, with effect from the forenoon of the 26th May, 2003.

N. P. DWIVEDI, Dy. Secy.

New Delhi, the 29th May 2003

No. 11/29/95-EP(Agr.IV).—The President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Shri Anil Swarup, IAS (UP : 81) as Chairman of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for a period of two months beyond 13th April, 2003 or till his successor joins, whichever is earlier.

ANUP K. THAKUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DIRECTORATE OF VANASPATI VEGETABLE OILS & FATS)

New Delhi, the 21st May 2003

No. A-20011/1/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri C. P. Verma, Assistant Director in the Dte. of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats as Deputy Director on ad-hoc basis, in the same organisation in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 13-5-2003 upto 30th June 2003.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 21st May 2003

No. A. 32013/1/2002-Admn.I(A).—In continuation of this Department's notification of even number dated 30 September, 2002, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri P. K. Somasundaram, Junior Analyst as Scientist 'B' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8060-275-13500 for six months w.e.f. 05-04-2003 to 04-10-2003 or till regular incumbent joins duty, whichever is earlier.

T. N. DWIVEDI, Dy. Secy.

New Delhi-110016, the 26th May 2003

No. A. 19014/6/88-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Dr. P. Govinda Rao Scientist 'F', Department of Science and Technology from the Government Service on acceptance of his notice of voluntary retirement under Rule 48-A of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, w.e.f. 26th May, 2003 (A/N).

B. K. MANTHAN, Desk Officer

The 30th May 2003

No. A. 19014/6/82-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Dr. P. K. B. Menon, Scientist 'G' & Head (NEB) in the Department of Science and Technology, from the Government Service on attaining the age of superannuation on 31st May, 2003 (A/N).

B. K. MANTHAN, Desk Officer

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 8th April 2003

No. A.12026/7/2001-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Rishi, an officer belonging to the 1969 batch of West Bengal cadre of the Indian Forest Service, to the post of Additional Director General of Forests (Wild Life) in this Ministry with effect from the afternoon of 7th April, 2003 until the date of his superannuation i.e. 31-12-2006 or until further orders, whichever is earlier.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 24th May 2003

No. A.39012/15/96-CHS.I.—Consequent upon acceptance of her resignation Dr. Ritu Partap is deemed to have relinquished the charge of the post of Medical Officer of the Central Health Service under the Government of National Capital Territory of Delhi on the afternoon of 5th November 1996.

The period of her absence from 14-6-1996 to 5-11-1996 has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 8th May 2003

No. PF/S-152/Admn.I(Estt.III).—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievance & Pension, Department of Personnel and Training's Order No. 5/6/2002-EO(SM.I) dated 18th November, 2002, Shri S. S. Brar, IAS(PB:77) has assumed the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, with effect from the forenoon of 12-12-2002.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 8th May 2003

No. 29-7/2001-PP-II.—The President is please to appoint the following direct recruit Assistant Director (Plant Pathology) (Rs. 8000—13500) as Deputy Director (Plant Pathology) in the scale of Rs. 10 000—15200/- on promotion basis with effect from the dates indicated against each :—

1. Dr. K. C. Gupta—From 03-03-2003 (F/N).
2. Dr. N. Sathyanarayana—From 28-2-2003 (F/N).

2. The promotion to the above officers to the post of Deputy Director (Plant Pathology) shall be subject to interim directions passed by the Hon'ble CAT, Allahabad in O.A. No. 430/02 filed by Dr. C. M. Srivastava, Plant Protection Officer (Plant Protection), Central Integrated Pest Management Centre, Gorakhpur Vs Union of India.

SATWANT SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING

New Delhi, the 30th May 2003

No. 19-265/73-LD. II/A. III.—On attaining the age of superannuation Shri K. N. Arora, Director, Regional Station for Forage Production & Demonstration, Hisar, retires from Government service with effect from the afternoon of 31st May 2003.

RADHA MANI, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 30th May 2003

F. No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In partial modification of this Ministry's notification No. 16011/2/2002-SCD-IV dated 16-09-2002 the President is pleased to appoint Dr. C. S. Prasad (IES : 69), Additional Development Commissioner (Small Scale Industries) as Official Director on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance and Development Corporation (NSFDC), with immediate effect and till further orders, in place of Shri Suresh Chandra.

S. A. SIDDIQI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 28th March 2003

No. A-32014/3/2003-Admn. II.—In continuation of this Department's Notification No. A-32014/2/97-Admn. II, dated 30-4-2002 & 18-2-2003 and Notification No. A-32014/18/99-Admn. II, dated 13-2-2003, the President is pleased to permit the following Assistants of CSS cadre of the Department of Telecommunications to continue to officiate as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500—10500/- in the same Department

purely on ad-hoc basis for the period of indicated against their names or till regular Section Officers become available or until further orders, whichever is earlier :—

S. No., Name of the officers and Period—From—To

S/Shri

1. Suman Chatterjee, 01-04-2003—30-06-2003
2. R. S. Solanki, 01-04-2003—30-06-2003
3. Pitamber Sahoo, 01-04-2003—30-06-2003
4. Jagdish Kumar, 1-04-2003—30-06-2003
5. Parimal Kumar, 01-04-2003—30-06-2003
6. Sunil Kumar Aggarwal, 01-04-2003—30-06-2003
7. Rajinder Kumar, 01-04-2003—30-06-2003
8. Surendra Thakur, 01-04-2003—30-06-2003
9. Rabin Sarkar, 01-04-2003—30-06-2003
10. Rajeev Kumar Jain, 01-04-2003—30-06-2003
11. Santosh Kumar, 01-04-2003—30-06-2003
12. Mahendra Nath, 01-04-2003—30-06-2003
13. Bhupender Singh, 01-04-2003—30-06-2003
14. Ramesh Kumar, 01-04-2003—30-06-2003
15. Rajinder Kumar Jatav (SC), 01-04-2003—30-06-2003
16. Ram Swarup, 01-04-2003—30-06-2003
17. Hari Ram (SC), 01-04-2003—30-06-2003
18. Gurdiyal Singh (SC), 01-04-2003—30-06-2003
19. Ravi Dutt, 01-04-2003—30-06-2003
20. L. R. Gulati, 11-04-2003—30-06-2003
21. D. R. Meena (ST), 06-12-2001—15-04-2002

2. The above ad-hoc appointment will not confer on the above officials any right for continuation, regularization or seniority in the Section Officers' Grade.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn. II)

The 17th April 2003

No. A-32014/18/99-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar, Assistant of CSS cadre of the Department of Telecommunications to the grade of Section Officer in the pay scale of Rs. 6500—10500/- in the same Department purely on ad-hoc basis for a period of three months w.e.f. the forenoon of 16-4-2003 or till regular Section Officer becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment will not confer on the above official any right for continuation, regularization or seniority in the Section Officers' Grade.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn. II)

New Delhi-110001, the 8th April 2003

No. 41-04/2001-Admn.I/IV.—The President is pleased to permit the following Engineers in the Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Telecommunications to continue to officiate as Assistant Wireless Advisers/Engineers-in-Charge in the same Department in the pay scale of Rs. 10000-325-15200, on ad-hoc basis, for the periods mentioned against their names, or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri P. D. Ambade, 31-12-2002—29-06-2003
2. Shri Gulab Chand, 21-12-2002—20-06-2003
3. Shri N. K. Bholi, 01-01-2003—30-06-2003
4. Shri R. Paramanathan, 14-01-2003—13-07-2003
5. Shri K. S. Kandhari, 17-01-2003—16-07-2003
6. Shri Viresh Goel, 23-01-2003—22-07-2003

P. MURALEEDHARAN, Under Secy. (Admn.IV)

The 2nd May 2003

No. 41-15/2003-Admn.IV.—On selection for appointment as Consultant in Spectrum Management and Pricing to the Asia Pacific Telecommunity in the Kingdom of Tonga, Shri Anil Kumar, Deputy Director (Wireless Monitoring), Department of Telecom is relieved of his duties with effect from the afternoon of 2nd May, 2003 for proceeding on deputation on foreign service terms and conditions for a period of two weeks.

2. Consequent on his relief on deputation, Shri Anil Kumar is reverted to his regular post of Engineer-in-Charge/Assistant Wireless Adviser with effect from the afternoon of 2nd May, 2003.

P. MURALEEDHARAN, Under Secy.
Admn.-IV

New Delhi-110 001, the 5th May 2003

No. 41-13/99-Admn.I/IV.—The President is pleased to permit the following Deputy Wireless Advisers/Deputy Directors (Wireless Monitoring) in the Wireless Planning & Co-ordination Wing/Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications to continue to officiate as Joint Wireless Advisers/Director (Wireless Monitoring) in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- in the same Department, on ad-hoc basis for the periods mentioned against their names :—

S. No., Name, From & To

1. Shri S. Balakrishnan, 15-10-2002—21-10-2002
2. Shri B. Chaudhuri, 01-09-2002—21-10-2002

N. MUKHERJEE, Under Secy. (Admn. IV)

The 9th May 2003

No. PF-420/Admn.I/IV.—On completion of the deputation as Deputy Adviser in the Telecom Regulatory Authority of India on foreign service terms and conditions for a period of two years from 4-5-2001, Shri T. K. Varadkrishnan assumed charge of the post of Assistant Wireless Adviser in the WPC Wing, Department of Telecommunications in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- plus Special Pay of Rs. 400/- per mpmth with effect from the forenoon of 05-05-2003.

N. MUKHERJEE, Under Secy. (Admn. IV)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th May 2003

No. ERB-I/2003/2/38.—Shri K. Biswal, Director's Grade officer of Railway Board Secretariat Service (Scale Rs. 14,300-18,300) has been promoted to Senior Administrative Grade (Scale Rs. 18,400—22,400) with effect from the forenoon of 19-05-2003.

R. R. JARUHAR, Secy. Railway Board and
Ex-officio Additional Secretary

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 28th May 2003

No. A-32013/7/2000 E.II.—The President is pleased to appoint Shri Sirivella Vijaya Kumar as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 12-05-2003 (F.N.) and until further orders.

N. C. KAUSHIK, Under Secy.